

Date: 11th November, 2024

The Manager
BSE Limited
Corporate Relationship Department,
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai 400 001

The Manager
National Stock Exchange of India Limited
Listing Department
Exchange Plaza
5th Floor, Plot no C/1, G Block
Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai – 400 051

Scrip Code : 543990

Symbol : SIGNATURE

Subject: Newspaper publication of Un-audited Financial Results (both Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter and half year ended on 30th September, 2024.

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith the copies of the newspaper advertisements of the extract of the unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended on 30th September, 2024 published in English and Hindi newspapers on 9th November, 2024 in Financial Express and Jansatta respectively.

Kindly take the above information on your record.

Thanking You,

For SIGNATUREGLOBAL (INDIA) LIMITED

**(M R BOTHRA)
COMPANY SECRETARY**

Encl: A/a

India, Asean ties crucial to tackle modern issues: EAM

GURDIP SINGH
Singapore, November 8

INDIA AND ASEAN are major demographics and their collaboration can be crucial in tackling contemporary issues, ensuring food and health security and addressing political challenges in the shared region like Myanmar, external affairs minister S Jaishankar said on Friday. Jaishankar's remarks came as he addressed the Eighth Roundtable of Asean-India Network of Think-Tanks - Navigating a World in Transition: Agenda for Asean-India Cooperation.



External affairs minister S Jaishankar delivers the keynote address at the 8th roundtable of Asean - India Network of Think-Tanks, in Singapore

"India and Asean are major demographics whose emerging demands can not only support each other but become larger productive forces in the international economy," Jaishankar, who is here on a day-long visit, said.

Together, Asean and India account for more than a quarter of the world's population, he said. "Our consumer demands and lifestyle choices are themselves major economic drivers. They will also shape the scale of services and connectivity as we promote trade, tourism, mobility and education. The magnitude of our endeavours has a resonance that is far beyond the

immediate domain," he said. "Collaboration can also be crucial in addressing contemporary challenges. In an era of extreme climate events, ensuring food security is a major concern. Similarly, with the experience of global pandemics, preparing for health security is no less vital," he added.

Jaishankar said there are, and there will be political challenges in the shared region like Myanmar that India and Asean will have to address together. "A prime example today is the situation in Myanmar. The interest and I dare say perspective of those who are proximate ... is always difficult," he said. "We do not have the luxury of distance or indeed of time. This is increasingly the case of HADR (Humanitarian Assistance and Disaster Relief) situations as well and also maritime safety and security," he stressed.

Among them is 'Election King' K Padmarajan from Tamil Nadu, who earned the moniker following his over 200 unsuccessful electoral bids, including against top leaders and former PM AB Vajpayee and Manmohan Singh, besides PM Narendra Modi. Jayendra K Rathod from Gujarat, who ran against Home Minister Amit Shah in the Lok Sabha polls, is among the 11 candidates in the fray from the hill constituency. PTI

Outsiders dominate Wayanad LS by-election

ARUN MADHAVAN
Wayanad, November 8

KERALA HAS A history of electing leaders from outside the state as Lok Sabha MPs, with former Wayanad MP Rahul Gandhi being the latest, and his sister Priyanka Gandhi Vadra might join the list if the electors here give her the thumbs up in the November 13 by-poll.

Apart from Rahul Gandhi, who represented the Lok Sabha segment before vacating it, several leaders from outside the state have served as MPs from Kerala. They are - Muhammad Ismail from Tamil Nadu, GM Banatwala from Maharashtra, and Ebrahim Sulaiman Sait from Karnataka, all of whom were elected as IUML MPs multiple times from south. Interestingly, a host of 'outsiders' are among the contestants for next week's elections.

Open interest in rupee-dollar futures on the SGX, which averaged 75,500 contracts in January, more than doubled to 163,000 contracts in October. At its peak in July and August, over 200,000 contracts were

FROM THE FRONT PAGE

SBI Q2 profit up 28%

SETTY ALSO ADDED that the bank has a strong corporate loan pipeline of ₹6 lakh crore. He expects a 14-16% growth in loans and a double-digit growth in deposits.



SBI's infrastructure loans jumped 8.86% in the July-September quarter, and it currently has over ₹4 lakh crore of outstanding loans in this sector. It expects more demand for such credit. "We have a significant infrastructure book, and there is a good amount of interest from investors for this particular instrument (infrastructure bonds)," Setty added.

As far as stress buildup in the microfinance segment is con-

cerned, he said that the bank has a minuscule book in terms of overall advance. On the asset quality front, gross non-performing asset (NPA) improved to 2.13% from 2.21% in June, while net NPA stood at 0.53%, compared to 0.57% in the previous quarters. The capital adequacy ratio (CAR) stood at 13.76%, with a CET-1 ratio of 9.95% and a tier-1 ratio of 11.32%. The bank has registered a firm growth in its digital business. Around 61% of the savings accounts were opened through YONO - the bank's mobile app. Around 81 million customers with YONO.

Sharing branch expansion plans, Setty said the board has approved a plan to open 600 branches in the current financial year. Of this, around 550 have already been approved and notices have been given to circle management. Of the total, 135 are already operational.

Trading volumes in currency F&O nosedive 98%

WITH LIQUIDITY DRYING up in India, foreign portfolio investments have shifted to offshore exchanges, said a forex dealer at a large private bank. The Singapore Exchange (SGX) and Dubai Exchange have witnessed a substantial uptick in rupee-dollar futures trading.



Open interest in rupee-dollar futures on the SGX, which averaged 75,500 contracts in January, more than doubled to 163,000 contracts in October. At its peak in July and August, over 200,000 contracts were

trading daily on SGX, underscoring the appeal of foreign exchanges towards lower regulatory restrictions. "The speculative chunk of currency volumes has largely vanished," Jateen Trivedi, vice-president, LKP Securities, said, adding

that currently only importers and exporters are using this for hedging their currency exposure to safeguard against rate fluctuations in currencies like the dollar, euro, pound and yen. Analysts have also observed migration to alternative asset classes that still allow speculative futures and options trading, such as equities, gold, crude oil and silver. Some broking firms and analysts have even stopped tracking the currency derivatives segment due to the dried-up activity.

Everyone in Maha wants Mahayuti govt, victorious Fadnavis: Amit Shah

PRESS TRUST OF INDIA
Maharashtra, November 8

SENIOR BJP LEADER Amit Shah on Friday said people across Maharashtra wanted the Mahayuti government to retain power after the assembly elections, and to ensure victory of deputy chief minister Devendra Fadnavis.



Union home minister Amit Shah shows a victory sign during a public meeting for the Maharashtra assembly elections, at Shirala in Sangli on Friday

Speaking at a campaign rally at Shirala in Sangli district, Shah said the Narendra Modi-led BJP government is in power at the Centre, and the government of the BJP-Shiv Sena-NCP alliance was needed to be formed in the state after the elections.

"On November 20, across Maharashtra, there will be voting, and you people have to take a decisive stand. One and a half months ago, I toured the entire state. I have been to Vidarbha, Mumbai, Konkan, Kolhapur, North Maharashtra. Wherever I went, there was this one thing (sentiment) and that was to form the Mahayuti government and make Devendra Fad-

navis victorious," said Shah. With BJP-led governments in both the centre and the state, Maharashtra will become number one in governance, the Union minister added.

Asked by reporters in Pune whether Shah's statement hinted that Fadnavis would become chief minister after the elections, NCP chief and deputy CM Ajit Pawar said the decision would be taken collectively. The leaders of the ruling alliance will sit together and decide, Pawar said.

Fadnavis, who was chief minister from 2014 to 2019, became deputy chief minister when the BJP and a faction of the Shiv Sena formed government in 2022 with Eknath Shinde as chief minister.

Inspirisys Solutions Limited

CIN: L30006TN1995PLC031736
Regd. Office: First Floor, Dowlath Towers, New Door Nos. 57, 59, 61 & 63, Taylors Road, Kilpauk, Chennai - 600 010.
Phone No. 044 4225 2000
Website: www.inspirisys.com ; Email Id: sundaramurthy.s@inspirisys.com

Extract of the Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and year to date ended 30th September, 2024

Sl. No.	Particulars	3 Months ended 30th September, 2024	3 Months ended 30th June, 2024	3 Months ended 30th September, 2023	Year to date 30th September, 2024
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total income from operations	8,415	10,415	18,414	18,830
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	470	353	738	823
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	470	353	738	823
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	377	249	571	626
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	83	282	137	366
6	Equity Share Capital	3,962	3,962	3,962	3,962
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	1. Basic:	0.95	0.63	(0.11)	1.58
	2. Diluted:	0.95	0.63	(0.11)	1.58

NOTES:
1. The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter ended 30th September, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated financial results are available on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com & www.nseindia.com and also on the Company's website at www.inspirisys.com

Standalone

Sl. No.	Particulars	3 Months ended 30th September, 2024	3 Months ended 30th June, 2024	3 Months ended 30th September, 2023	Year to date 30th September, 2024
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
i.	Turnover	8,330	10,258	18,149	18,588
ii.	Profit / (Loss) before tax	362	395	782	757
iii.	Profit / (Loss) after tax	270	291	615	561

2. With respect to the standalone financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its respective meetings held on 08 November 2024. The standalone financial results are prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standards (IndAS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 (as amended).

3. The Trade Receivables balances of the Holding Company as on 30 September 2024 comprises Rs. 4,053 Lakhs that are due from one of its wholly owned subsidiary, Inspirisys Solutions North America, Inc ("ISNA"). These foreign currency denominated receivable balances have been pending since 2018-19 and have resulted in foreign currency receivables that remain unsettled beyond the stipulated period as permitted under the Foreign Exchange Management, Act 1999 (as amended). ISNA operates as the marketing arm for the offshore services provided by the Company to the US-based customers of ISNA. The aforesaid Trade Receivables balances of the Company reflect amounts due towards the services rendered and billed to ISNA for these offshore services. Over the years, ISNA has been responsible for procuring orders from its North American clients and coordinating the delivery of onsite and offshore services. The management of the Company has outlined business plans such as new marketing strategy aimed at improving ISNA's performance by reviving old customer base and procuring new customers and generating sufficient cash flows to clear the outstanding balances owed by ISNA to the Company. Consequently, the management of the Company believes that no loss allowance for expected credit losses against these receivables under Ind AS 109, Financial Instruments is necessary as at September 30, 2024. Additionally, the management of the Company has assessed and concluded that no loss allowance is required to be recognized for any Goods and Services Tax (GST) liability, including interest that may arise due to the non-realization of export proceeds within the stipulated period as per sub-rule 1 of Rule 96A of the Central Goods and Service Tax (CGST) Rules, 2017. The impact of non-compliance with Clause C.20 of the Master Direction - Export of Goods and Services (Updated as on November 22, 2022) for non-realization of export proceeds within stipulated timeline has been determined by management to be immaterial to the financial results of the Company for the quarter and six months ended September 30, 2024.

For Inspirisys Solutions Limited
Murali Gopalakrishnan
Executive Director & Chief Executive Officer

Place : Chennai
Date : 08.11.2024

SIGNATURE GLOBAL (INDIA) LIMITED
CIN - L70100DL2000PLC104787

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS PERIOD ENDED 30 SEPTEMBER 2024

S. No.	Particulars	Quarter ended			Six months period ended			Year ended
		30 September 2024	30 June 2024	30 September 2023	30 September 2024	30 September 2023	31 March 2024	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Total income from operations	7,774.26	4,279.83	1,211.65	12,054.09	3,000.67	13,245.55	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(71.77)	132.73	(236.82)	60.96	(321.64)	44.69	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(71.77)	132.73	(236.82)	60.96	(321.64)	44.69	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	41.52	67.96	(199.29)	109.48	(271.09)	163.24	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	42.31	58.28	(197.16)	100.59	(271.81)	161.56	
6	Equity share capital (face value of Re. 1 each)	140.51	140.51	140.51	140.51	140.51	140.51	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	-	-	6,126.03	
8	Earnings/(loss) per equity share (face value of Re. 1 each per share) (quarterly and half yearly figures are not annualised)							
	Basic (Rs. per share)	0.29	0.48	(1.59)	0.77	(2.17)	1.22	
	Diluted (Rs. per share)	0.29	0.48	(1.59)	0.77	(2.17)	1.22	

1. In terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), this Statement of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter and six months period ended 30 September 2024 ("Unaudited Consolidated Financial Results") of Signature Global (India) Limited (the "Holding Company" or the "Company") and its subsidiaries (the Company along with subsidiaries together referred to as "the Group") has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 8 November 2024 and have been subjected to limited review by the statutory auditors of the Company.

2. The Unaudited Consolidated Financial Results, for the quarter and six months period ended 30 September 2024 have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards 34, Interim Financial Reporting ("Ind AS - 34"), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 (the Act) and other accounting principles generally accepted in India and is in compliance with the presentation and disclosure requirement of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).

3. During the year ended 31 March 2024, the Company had completed its Initial Public Offer ("IPO") of 18,961,038 Equity shares having face value of Rs. 1 each, at an issue price of Rs. 385 per equity share (including share premium of Rs. 384 per share), comprising offer for sale of 3,298,701 shares by selling shareholder aggregating to Rs. 1,270.00 million and a fresh issue of 15,662,337 shares aggregating to Rs. 6,030.00 million. The equity shares of the Company were listed on BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") on 27 September 2023.

4. Consequently to the management's decision during the year ended 31 March 2024, to sell one of its investment property at Gurugram, the Group has been carrying such property under 'asset classified as held for sale', in accordance with applicable Ind AS while the related advance of Rs. 120.00 million received as at 30 September 2024 has been presented under 'liabilities directly associated with the assets classified as held for sale' in the Consolidated Statement of Assets and Liabilities. Subsequent to quarter and period ended 30 September 2024, the Group has executed the sale deed on 23 October 2024, and the said transaction has got concluded.

5. The Board of Directors of the Company at their meeting held on 29 August 2024 approved the formulation of "Signature Global Employee Stock Plan 2024", with the authority to grant not exceeding 850,000 employee stock options to such eligible employees of the Group as may be determined by the Nomination and Remuneration Committee, in one or more tranches, from time to time, which in aggregate shall be exercisable into not more than 850,000 equity shares of face value of Rs. 1 each fully paid up, subject to regulatory/statutory approvals. The said ESOP Plan has been subsequently approved by the shareholders' members at the Annual General Meeting held on 28 September 2024.

Key Standalone financial information is given below:

S. No.	Particulars	Quarter ended			Six months period ended			Year ended
		30 September 2024	30 June 2024	30 September 2023	30 September 2024	30 September 2023	31 March 2024	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Total income from operations	4,911.78	2,568.46	2,207.74	7,480.24	4,148.59	9,614.07	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(145.67)	(133.79)	(120.33)	(279.46)	(81.00)	117.62	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(145.67)	(133.79)	(120.33)	(279.46)	(81.00)	117.62	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(40.20)	(133.79)	(109.62)	(173.99)	(81.46)	221.58	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(38.24)	(140.58)	(108.52)	(178.82)	(82.57)	219.38	
6	Equity share capital (face value of Re. 1 each)	140.51	140.51	140.51	140.51	140.51	140.51	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	-	-	8,532.18	
8	Earnings/(loss) per equity share (face value of Re. 1 each per share) (quarterly and half yearly figures are not annualised)							
	Basic (Rs. per share)	(0.29)	(0.95)	(0.88)	(1.24)	(0.65)	1.67	
	Diluted (Rs. per share)	(0.29)	(0.95)	(0.88)	(1.24)	(0.65)	1.67	

The above is an extract of the detailed format of quarter and six months period ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarter and six months period ended Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com / www.nseindia.com and Company's website at www.signatureglobal.in.

On behalf of the Board of Directors
For Signature Global (India) Limited

Place: Gurugram
Date: 8 November 2024

Ravi Aggarwal
Managing Director

Registered office: 13th floor, Dr. Gopal das Bhawan, 28, Barakhamba Road, New Delhi-110001
Website: www.signatureglobal.in, Tel: 011 49281700, Email: cs@signatureglobal.in

द्रांसकोर्प इन्टरनेशनल लि.													
CIN : L51909DL1994PLC235697													
पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नम्बर 3, एच.ए.एफ. पॉकेट, सेक्टर 18ए, हारका, फेज-II नई दिल्ली-110075													
Website: www.transcorpint.com, E-mail: grievance@transcorpint.com													
फोन: 91-11-30418901-05 फैक्स: 91-11-30418906													
30 सितम्बर 2024 को समाप्त द्वितीय तिमाही एम अर्ध वर्ष के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का निष्कर्ष													
(Rs. in Lakhs except per share data)													
क्र.सं.	विवरण	चतुर्थ तिमाही						समेकित					
		तिमाही		अर्ध वर्ष		वर्ष		तिमाही		अर्ध वर्ष		वर्ष	
		समाप्त	समाप्त	समाप्त	समाप्त	समाप्त	समाप्त	समाप्त	समाप्त	समाप्त	समाप्त	समाप्त	समाप्त
	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024	
	(रु.लाखों में)	(रु.लाखों में)	(रु.लाखों में)	(रु.लाखों में)	(रु.लाखों में)	(रु.लाखों में)	(रु.लाखों में)	(रु.लाखों में)	(रु.लाखों में)	(रु.लाखों में)	(रु.लाखों में)	(रु.लाखों में)	
1	परिचालन से कुल आय	48,578.36	40,040.27	59,680.05	88,618.63	123,839.68	214,176.36	48,642.55	40,214.26	59,810.51	88,856.81	124,124.80	
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर से पहले, असाधारण और / या असाधारण मदों के बाद)	59.20	33.53	18.85	92.73	43.46	108.54	24.11	102.60	46.62	126.71	118.44	
3	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और / या असाधारण मदों के बाद)	59.20	33.53	18.85	92.73	43.46	108.54	24.11	1,056.08	46.62	1,080.19	118.44	
4	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और / या असाधारण मदों के बाद)	44.30	25.09	14.11	69.39	32.52	55.20	(33.45)	1,038.28	37.83	1,004.84	86.50	
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (कर के बाद की अवधि के लिए लाभ / (हानि) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	50.11	25.25	17.69	75.36	38.17	59.26	(73.13)	1,073.52	39.29	1,000.39	128.89	
6	इक्विटी शेयर पूंजी (रु. 2/- प्रति शेयर)	637.14	637.14	636.71	637.14	636.71	637.14	637.14	636.71	637.14	636.71	637.14	
7	पिछले वर्ष की लेखापरीक्षित तुलना शीट में दर्शाए अनुसार आरक्षित निधि (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	-	-	-	4,491.22	-	4,493.49	-	-	-	-	5,079.50	
8	प्रति शेयर आय (प्रत्येक रु. 2/- की) (निरंतर और बद किए गए प्रभावों के लिए)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	द्वि-वर्षीय	0.14	0.08	0.04	0.22	0.10	0.17	(0.10)	3.26	0.12	3.15	0.30	
2.	त्रि-वर्षीय	0.14	0.06	0.04	0.22	0.10	0.17	(0.10)	3.25	0.12	3.15	0.30	

नोट: 1. ऑडिट रिपोर्ट द्वारा 07 नवंबर 2024 को आयोजित अपनी बैठक में उपरोक्त परिणामों की समीक्षा और निष्कारण की गई थी। इसे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 07 नवंबर 2024 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित और रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। कंपनी के वित्तीय लेखा परीक्षक ने इन वित्तीय परिणामों पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त की है।

2. कंपनी के वित्तीय लेखा परीक्षक और सीएफओ ने सभी (एसओडीआर) विनिमय, 2015 के विनिमयन 33 (2) (ए) के संदर्भ में प्रमाणित किया है कि उपरोक्त वित्तीय परिणामों में कोई त्रुटि या भ्रम प्रमाणित नहीं है और किसी भी भौतिक तथ्यों को नहीं छोड़ा गया है जो इसमें निहित बयान या आंकड़ों को भ्रम प्रमाणित कर सकते हैं।

3. कंपनी विदेशी मुद्रा और भ्रमण के कारणों में लगी हुई है और इसलिए इस एम 108-ऑनरिडिंग सेगमेंट के तहत परिभाषित मानकों के पीछे कोई अलग रिपोर्ट करने योग्य छड़ नहीं है।

4. 30 सितम्बर 2024 को समाप्त तिमाही के आंकड़ों, जैसा कि विवरण में सूचित किया गया है, पिछले वित्तीय वर्ष के पूर्व प्रमाणित लेखापरीक्षित आंकड़ों और पिछले वित्तीय वर्ष की द्वितीय तिमाही तक प्रकाशित वर्ष से अब तक के आंकड़ों के बीच अनुपस्थिति के आंकड़ों हैं।


5. यहां कहीं आवश्यक हो, पिछले वर्षों/अवधि के आंकड़ों को पुनः व्यथित और पुनर्गठित किया गया है।

6. उपरोक्त सभी (एसओडीआर) विनिमय, 2015 के विनिमयन 33 के तहत बीएसई के साथ दमर भौतिक समाप्त वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर और कंपनी की वेबसाइट पर www.transcorpint.com पर उपलब्ध है।

द्रांसकोर्प इन्टरनेशनल लिमिटेड के लिए
sd/-
राजेश गर्ग
सीएफओ

हस्ता/—
सुनिल के जैन
कंपनी सचिव
प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 07.11.2024
स्थान: जयपुर



AN ISO 9001:2015; 14001:2015; 45001:2018 CERTIFIED COMPANY

SIGNATUREGLOBAL (INDIA) LIMITED

CIN - L70100DL2000PLC104787

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS PERIOD ENDED 30 SEPTEMBER 2024

S. No.	Particulars	(Rs. in million unless otherwise stated)					
		Quarter ended		Six months period ended		Year ended	
		30 September 2024	30 June 2024	30 September 2023	30 September 2024	30 September 2023	31 March 2024
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Total income from operations	7,774.26	4,279.83	1,211.65	12,054.09	3,000.67	13,245.55
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(71.77)	132.73	(236.82)	60.96	(321.64)	44.69
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(71.77)	132.73	(236.82)	60.96	(321.64)	44.69
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	41.52	67.96	(199.29)	109.48	(271.09)	163.24
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	42.31	58.28	(197.16)	100.59	(271.81)	161.56
6	Equity share capital (face value of Re. 1 each)	140.51	140.51	140.51	140.51	140.51	140.51
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	-	-	6,126.03
8	Earnings/loss per equity share (face value of Re. 1 each per share) (quarterly and half yearly figures are not annualised)	0.29	0.48	(1.59)	0.77	(2.17)	1.22
	Diluted (Rs. per share)	0.29	0.48	(1.59)	0.77	(2.17)	1.22

1. In terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), this Statement of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter and six months period ended 30 September 2024 ("Unaudited Consolidated Financial Results") of Signatureglobal (India) Limited (the "Holding Company" or the "Company") and its subsidiaries (the Company along with subsidiaries together referred to as the "Group") has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 8 November 2024 and have been subjected to limited review by the statutory auditors of the Company.

2. The Unaudited Consolidated Financial Results, for the quarter and six months period ended 30 September 2024 have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards 34, Interim Financial Reporting (Ind AS - 34), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 (the Act) and other accounting principles generally accepted in India and is in compliance with the presentation and disclosure requirement of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).

3. During the year ended 31 March 2024, the Company had completed its Initial Public Offer ("IPO") of 18,961,038 Equity Shares having face value of Rs. 1 each, at an issue price of Rs. 385 per equity share (including share premium of Rs. 384 per share), comprising offer for sale of 3,298,701 shares by selling shareholder aggregating to Rs. 1,270.00 million and a fresh issue of 15,662,337 shares aggregating to Rs. 6,030.00 million. The equity shares of the Company were listed on BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") on 27 September 2023.

4. Consequently to the management's decision during the year ended 31 March 2024, to sell one of its investment property at Gurugram, the Group has been carrying such property under 'asset classified as held for sale', in accordance with applicable Ind AS while the related advance of Rs. 120.00 million received as at 30 September 2024 has been presented under 'liabilities directly associated with the assets classified as held for sale' in the Consolidated Statement of Assets and Liabilities. Subsequent to quarter and period ended 30 September 2024, the Group has executed the sale deed on 23 October 2024, and the said transaction has got concluded.

5. The Board of Directors of the Company at their meeting held on 29 August 2024 approved the formulation of "Signatureglobal Employee Stock Plan 2024", with the authority to grant not exceeding 850,000 employee stock options to such eligible employees of the Group as may be determined by the Nomination and Remuneration Committee, in one or more tranches, from time to time, which in aggregate shall be exercisable into not more than 850,000 equity shares of face value of Rs. 1 each fully paid up, subject to regulatory/statutory approvals. The said ESOP Plan has been subsequently approved by the shareholders/ members at the Annual General Meeting held on 28 September 2024.

Key Standalone financial information is given below:

S. No.	Particulars	(Rs. in million unless otherwise stated)					
		Quarter ended		Six months period ended		Year ended	
		30 September 2024	30 June 2024	30 September 2023	30 September 2024	30 September 2023	31 March 2024
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Total income from operations	4,911.78	2,568.46	2,207.74	7,480.24	4,148.59	9,614.07
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(145.67)	(133.79)	(120.33)	(279.46)	(81.00)	117.62
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(145.67)	(133.79)	(120.33)	(279.46)	(81.00)	117.62
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(40.20)	(133.79)	(109.62)	(173.99)	(81.46)	221.58
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(38.24)	(140.58)	(108.52)	(178.82)	(82.57)	219.38
6	Equity share capital (face value of Re. 1 each)	140.51	140.51	140.51	140.51	140.51	140.51
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	-	-	8,532.18
8	Earnings/loss per equity share (face value of Re. 1 each per share) (quarterly and half yearly figures are not annualised)	(0.29)	(0.95)	(0.88)	(1.24)	(0.65)	1.67
	Diluted (Rs. per share)	(0.29)	(0.95)	(0.88)	(1.24)	(0.65)	1.67

The above is an extract of the detailed format of quarter and six months period ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarter and six months period ended Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com, www.nseindia.com and Company's website at www.signatureglobal.in.

On behalf of the Board of Directors
For Signatureglobal (India) Limited

Date: 8 November 2024
Registered office: 13th floor, Dr. Gopal das Bhawan, 28, Barankhamba Road, New Delhi-110001
Website: www.signatureglobal.in, Tel: 011 49281700, Email: cs@signatureglobal.in

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
सर्वे का. लिमिटेड नं. 7, द्वितीय वर, कानपुर रोड, बरन लोक, बरन हिल, नई दिल्ली-110057
कॉर्पोरेट कार्यालय: 304, कानपुर रोड, बरन लोक, बरन हिल, नई दिल्ली-110057
फोन: 011 49267000, टेली नं. 1800 212 8800, ईमेल: customer.care@heroilf.com
वेबसाइट: www.herohousingfinance.com, सीडीएस नं. L65192D1.2016PLC30148

पुष्टिपत्र
हमारे वित्तियान कर्मचारी की सूचना (अवल संशोधन के लिए) (सूचना हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित सूचना हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के नियम 3 के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार जो, 23-10-2024 को जनरल - दिल्ली में प्रकाशित हुआ था के संदर्भ में है, जिसमें उपाचारकों और कुं, सोनी मुनी सुनील झा से संबंधित संशोधन के लिए, जिसका अर्थ था संशोधन HFNPSHOU21000014004, HFNPSHOU21000014035 है, में उपाचारकों का नाम सोनी मुनी सुनील झा के बजाय "सोनी मुनी सुनील झा" के रूप में सूत्र जाना चाहिए। इस जनरल में हुई त्रुटि के लिए ईमानदारी से क्षमा है।
दिनांक: 09-11-2024, हस्ता/— प्राधिकृत अधिकारी
स्थान- दिल्ली/एसीसीआर
हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

जिंदल साँ लिमिटेड
सीआईएन - L2710AUP1984PLC023979
पंजीकृत कार्यालय: ए-1, यूएनएचआईडीसी इ-डब्ल्यू, परियारा, नंद गाँव रोड, कोसी कला, जिला मथुरा (उ.प्र.) 281403
कॉर्पोरेट कार्यालय: जिंदल रोड, 12, भिकाजी कला प्लेसा, नई दिल्ली - 110 066
वेबसाइट: www.jindalsaw.com

सूचना
एएमएसए सूचित किया जाता है कि कंपनी की असाधारण आम बैठक बुकार, 6 दिसम्बर, 2024 को सुबह 11:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ए-1, यूएनएचआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र नंदगाँव रोड, कोसी कला, जिला मथुरा-281403, (उत्तर प्रदेश) जिसमें उक्त असाधारण आम बैठक (इंजीनीयर्स) बताने की सूचना में निर्धारित विधियों में आधुनिक की जाएगी।
एएमएसए और सेबी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विनिमय संशोधित परिषदों के अनुसार इंजीनीयर्स की सूचना उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में माध्यम से भेजी जा रही है, जिन्हें ईमेल प्रतियों/आरटीए/डिजिटल के साथ पंजीकृत है और उन सभी अन्य सदस्यों को भौतिक प्रतियों भेजी जा रही है, जिन्हें ईमेल प्रतियों/आरटीए/डिजिटल के साथ पंजीकृत नहीं है। सदस्य कृपया ध्यान दें कि इंजीनीयर्स की सूचना कंपनी की वेबसाइट <https://www.jindalsaw.com/pdf/EGM-2024.pdf> स्टिक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। 1 नवंबर, 2024 को जारी रखने वाले सदस्यों की सूचना भेजी जा रही है।
इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्राधान्यों के अनुसार, कंपनी (प्रकाश और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दाखिल और प्रकटोपस्थापन आवश्यकताएं) विनिमय, 2015 के विनिमय 44 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को कंपनी की इंजीनीयर्स में शामिल होने वाले प्रस्ताव पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान जताने के लिए दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है।
सदस्य कृपया निम्नलिखित धारा पर ध्यान दें:
क. दूरस्थ ई-वोटिंग नमालवार, 3 दिसम्बर, 2024 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और गुरुवार, 5 दिसम्बर, 2024 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी।
ख. दूरस्थ ई-वोटिंग गुरुवार, 5 दिसम्बर, 2024 को शाम 5:00 बजे के बाद उपलब्ध नहीं होगी।
ग. दूरस्थ ई-वोटिंग और इंजीनीयर्स में मतदान के माध्यम से मतदान के लिए सदस्यों की प्राप्ति निर्धारित करने की तिथि तिथि 29 नवंबर, 2024 है।
घ. कोई भी व्यक्ति जो इंजीनीयर्स की सूचना में जताने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और निर्धारण तिथि यानी 29 नवंबर, 2024 तक शेयर रखता है, वह मेसर्स आरएसोएसीसी शेयर रजिस्ट्री (प्राइवेट) लिमिटेड, कंपनी के आर एच टी एलसी नं-25/1, प्रथम तल, आंचला औद्योगिक क्षेत्र फेज II, नई दिल्ली - 110020, फोन- 011-36020465/66, ईमेल-sec@shares@rcmcdelhi.com से संपर्क करके अपना गुरुवार आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
च. दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट जताने वाले सदस्यों में इंजीनीयर्स में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें इंजीनीयर्स में अपना वोट जताने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
छ. इंजीनीयर्स में उन सदस्यों के लिए मतदान के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी, जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं जताना है।
ज. सदस्य इंजीनीयर्स में दिए गए ई-वोटिंग निर्देशों को पढ़ सकते हैं या <https://evoting.nsi.com> पर जा सकते हैं और किसी भी प्रश्न के मामले में, आप सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता निमायावली <https://evoting.nsi.com> के अडनलोल अनुभाग में सदस्यों के लिए उपलब्ध है।
हस्ता/—
सुनिल के जैन
कंपनी सचिव
एफटीएस-3056

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 304, कानपुर रोड, बरन लोक, बरन हिल, नई दिल्ली - 110057
फोन: 011 49267000, टेली नं. 1800 212 8800, ईमेल: customer.care@heroilf.com
वेबसाइट: www.herohousingfinance.com, सीडीएस नं. L65192D1.2016PLC30148
सर्वे का. पता: लिमिटेड नं. 7, द्वितीय वर, कानपुर रोड, बरन लोक, बरन हिल, नई दिल्ली-110057

कक्षा-सूचना (अवल संशोधन के लिए)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)
जबकि आचारकों की हेतु हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अतिरिक्त अधिकारी होने के नाते, निम्नलिखित सदस्यों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति सूचना (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्राप्त की जाने वाली सूचना को प्रयोग करने हुए उपाचारकों को नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए नवीं उल्लिखित एक मांग सूचना जारी किया।
उपाचारकों उक्त राशि चुकाने में विफल रहने पर, एडवोकेट विवेक रूप से उपाचारकों और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि आचारकों/उपाचारकों धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यदि विवेक निम्नलिखित, सन्धिगतों का कक्षा ले जाते हैं। विवेक रूप से उपाचारकों और सामान्य रूप में जनता को उक्त संशोधन के साथ सौदा न करने की चेतावनी दी जाती है और संशोधन के साथ कोई भी उल्लिखित नोटीस दी गई राशि के साथ सौदा न करने की चेतावनी दी जाती है, शुल्क, लागत आदि हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।
प्रतिभूति परिणामों को चुकाने के लिए उपलब्ध समय के संख्या में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 10 के प्राधान्यों के लिए उपाचारकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

क्रम संख्या	व्यवसायी (बी) / अनुवृत्ति उपाचारकों (बी) का नाम	मांग सूचना की तिथि / मांग सूचना के अनुसार राशि	कक्षा- तिथि (एनलोल / भौतिक)
HHFGZHOU 21000017621	नीतु पणपवार, विवेक उपाचारक	21.08.2024, तिनांक 20.08.2024, रु.13,60,133/-	07/11/2024 (भौतिककक्षा)

प्रतिभूति परिणामों को चुकाने का विवरण: विवेक रूप से उपाचारकों में गाँव-बोधा, परगना-लोदी, तहसील और जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश में हित प्रवर्तन नंबर एन-1, द्वितीय तल पर, आई और, हित प्रवर्तन के अधिकार, सेक्टर 49/72 नं. 100, आंचला वॉलेट नंबर 193 और 194 पर निर्मित, हस्ता नंबर 750 निग में से है। सीमा: उत्तर: मांग/आरएचएच कक्षा/अन्य की संशोधन, पूर्व: सेक्टर 10.5 फीट, दक्षिण: सेक्टर 15 फीट, पश्चिम: अन्य की संशोधन।
दिनांक: 09/11/2024, हस्ता/— प्राधिकृत अधिकारी, हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, स्थान-दिल्ली/एसीसीआर

पंजीकृत कार्यालय: 304, कानपुर रोड, बरन लोक, बरन हिल, नई दिल्ली-110057
ऑफ डोमेस्ट, कोयंगला हार रिज रोड, हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बंगलोर-560071

जना रमॉल फाइनेंस बैंक
(एक अनुसूचित वित्तीय संस्था)

देशीय शाखा कार्यालय: जी-01, गार्डन प्लेड, साइबर हाइटेक, गीताजी नगर, एनएच-2, उत्तर प्रदेश-226010

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना
जबकि आपने नीचे उल्लिखित उपाचारकों, सह-उपाचारकों, गारंटर्स और बैंककर्ताओं से अपनी अवल संपत्तियों को निचरी रखकर जना रमॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से ऋण लिया है। आपके द्वारा की गई ऋण के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को नै-निर्धारित परिणामों के रूप में नवीकृत किया गया है, जबकि जना रमॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड अधिनियम के तहत एक सुविधित ऋणदाता है, और उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूत्रा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 2 के साथ पठित कॉन्स नंबर 2 में उल्लिखित उपाचारकों/सह-उपाचारकों/गारंटर्स/बैंककर्ताओं को नोटिस में उल्लिखित राशि को 60 दिनों के भीतर भविष्य के ब्याज के साथ चुकाने के लिए मांग सूचना जारी किया गया है। नोटिस की तारीख से, लेकिन विनिमय कारणों से उनमें से कुछ को नोटिस सामील नहीं किया जा सका।

क्र. सं.	उपाचारकों/सह-उपाचारकों/गारंटर्स/बैंककर्ता का नाम	ऋण खाता संख्या और ऋण राशि	लागू की जाने वाली प्रतिभूति का विवरण	एएमएसए की तारीख और तिमाही नोटिस की तारीख	बकाया राशि रुपये में, तिथि से
1.	मो. अमरव (उपाचारक), श्रीमती नजराना (सह-उपाचारक)	ऋण खाता संख्या 30869430000040 ऋण राशि: रु. 13,00,000/-	गिबरी रवली गई अवल संपत्ति: संपत्ति का विवरण: अवल संपत्ति का वह हि		